



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 चैत्र 1936 (श0)  
(सं0 पटना 333) पटना, शनिवार, 29 मार्च 2014

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

29 मार्च 2014

सं0 बी1-3-51/2014-17—लोक सभा का आम निर्वाचन, 2014 के अवसर पर **8-सुपौल, 9-अररिया, 10-किशनगंज 11-कटिहार, 12-पूर्णियाँ, 26-भागलपुर एवं 27-बाँका** संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29.03.2014 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-464/2014 (6) दिनांक 29.03.2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
हुसैन युसूफ रिजवी,  
संयुक्त सचिव।

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2014/चैत्र 8, 1936 (शक)

का0आ0 ..... (अ) -- पंद्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के, यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :

सारणी

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
असम	4-धुब्री
	5-कोक्राझाड़ (अ0ज0जा0)
	6-बारपेटा
	7-गौहाटी
	8-मंगलदाई
	10-नौगोंग
बिहार	8-सुपौल
	9- अररिया
	10- किशनगंज
	11-कटिहार
	12- पूर्णियां
	26- भागलपुर
	27- बांका
छत्तीसगढ़	1-सरगुजा (अ0ज0जा0)
	2-रायगढ़ (अ0ज0जा0)
	3-जांजगीर-चांपा (अ0जा0)
	4-कोरबा
	5-बिलासपुर
	7-दुर्ग
	8-रायपुर
जम्मू और कश्मीर	3-अनन्तनाग
झारखंड	1-राजमहल (अ0ज0जा0)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (1)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2)
	2-दुमका (अ0ज0जा0)
	3-गोड्डा
	7-धनबाद
मध्य प्रदेश	18- विदिशा
	21- देवास (अ0जा0)
	22- उज्जैन (अ0जा0)
	23- मंदसौर
	24-रतलाम (अ0ज0जा0)
	25-धार (अ0ज0जा0)
	26- इन्दौर
	27- खरगौन (अ0ज0जा0)
	28- खण्डवा
	29- बैतूल (अ0ज0जा0)
महाराष्ट्र	1-नन्दुरबार (अ0ज0जा0)
	2-धुले
	3-जलगांव
	4-रावेर
	18-जालना
	19-औरंगाबाद
	20-दिन्डोरी (अ0ज0जा0)
	21-नाशिक
	22-पालघर (अ0ज0जा0)
	23- भिवंडी
	24- कल्याण
	25-ठाणे
	26- मुम्बई उत्तर
	27- मुम्बई उत्तर-पश्चिम
	28- मुम्बई उत्तर-पूर्व
	29- मुम्बई उत्तर- मध्य
	30- मुम्बई दक्षिण मध्य
	31- मुम्बई दक्षिण
	32-रायगढ
राजस्थान	8- अलवर
	9-भरतपुर(अ0जा0)
	10-करौली-धौलपुर (अ0जा0)
	11-दौसा (अ0ज0जा0)
	12- टोंक-सवाई माधोपुर
तमिलनाडु	1-तिरुवल्लुर (अ. जा.)
	2-चेन्नई उत्तर
	3-चेन्नई दक्षिण
	4-चेन्नई केंद्रीय
	5-श्रीपेरुम्बुदुर
	6-कांचीपुरम् (अ. जा.)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (1)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2)
	7-अराकोन्नम
	8-वेल्लोर
	9-कृणागिरी
	10-धर्मापुरी
	11-तिरुवन्नामलाई
	12-अरानी
	13-विलुपुरम् (अ.जा.)
	14-कल्लाकुरिची
	15-सलेम
	16-नामाक्कल
	17-इरोड
	18-तिरुप्पुर
	19-नीलगिरि (अ.जा.)
	20-कोयम्बटूर
	21-पोल्लाची
	22-डिण्डीगुल
	23-करुर
	24-तिरुचिरापल्ली
	25-पेरम्बलुर
	26-कुड्डालोर
	27-चिदम्बरम (अ.जा.)
	28-मड्लालुथुरई
	29-नागापट्टिनम (अ.जा.)
	30-थन्जावुर
	31-शिवगंगा
	32-मदुरई
	33-थेनी
	34-विरुधुनगर
	35-रामानाथपुरम्
	36-थूथुक्कुडी
	37-टेनकासी (अ.जा.)
	38-तिरुनेलवेली
	39-कन्याकुमारी
उत्तर प्रदेश	16- हाथरस (अ0जा0)
	17- मथुरा
	18-आगरा (अ0जा0)
	19- फतेहपुर सीकरी
	20- फिरोजाबाद
	21-मैनपुरी
	22-एटा
	31-हरदोई (अ0जा0)
	40-फर्रूखाबाद
	41-इटावा (अ0जा0)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (1)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2)
	42-कन्नौज
	44-अकबरपुर
पश्चिम बंगाल	5- रायगंज
	6- बालूरघाट
	7-माल्दहा उत्तर
	8- माल्दहा दक्षिण
	9- जंगीपुर
	11-मुर्शिदाबाद
पुडुचेरी	1-पुडुचेरी

(पी.के.मल्होत्रा)

सचिव, भारत सरकार

[फा0 एच0-11024(2)/2014-वि02]

Ministry of Law and Justice  
Legislative Department

NOTIFICATION

*New Delhi, the 29<sup>th</sup> March, 2014/Chaitra 8, 1936 (Saka)*

S.O. (E).- Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of fifteenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union territories, as the case may be, of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and Puducherry, as specified in column (1) of the said Table, to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

TABLE

State/Union territory (1)	Parliamentary Constituency (2)
ASSAM	4-Dhubri
	5-Kokrajhar (ST)
	6-Barpeta
	7-Gauhati
	8-Mangaldoi
	10-Nawgong
BIHAR	8-Supaul
	9-Araria
	10-Kishanganj
	11-Katihar
	12-Purnia
	26-Bhagalpur

	27-Banka
CHHATTISGARH	1-Surguja (ST)
	2-Raigarh (ST)
	3-Janjgir-Champa (SC)
	4-Korba
	5-Bilaspur
	7- Durg
	8-Raipur
JAMMU & KASHMIR	3-Anantnag
JHARKHAND	1-Rajmahal (ST)
	2-Dumka (ST)
	3-Godda
	7-Dhanbad
MADHYA PRADESH	18-Vidisha
	21-Dewas (SC)
	22-Ujjain (SC)
	23-Mandsour
	24-Ratlam (ST)
	25-Dhar (ST)
	26-Indore
	27-Khargone (ST)
	28-Khandwa
	29-Betul (ST)
MAHARASHTRA	1-Nandurbar (ST)
	2-Dhule
	3-Jalgaon
	4-Raver
	18-Jalna
	19-Aurangabad
	20-Dindori (ST)
	21-Nashik
	22-Palghar (ST)
	23-Bhiwandi
	24-Kalyan
	25-Thane
	26-Mumbai North
	27-Mumbai North-West
	28-Mumbai North-East
	29-Mumbai North-Central
30-Mumbai South-Central	
31-Mumbai South	
32-Raigad	
RAJASTHAN	8-Alwar
	9-Bharatpur (SC)
	10-Karauli-Dholpur (SC)
	11-Dausa (ST)
	12-Tonk-Sawai Madhopur

TAMILNADU	1- Tiruvallur (SC)
	2- Chennai North
	3- Chennai South
	4-Chennai Central
	5-Sriperumbudur
	6-Kancheepuram (SC)
	7- Arakkonam
	8-Vellore
	9-Krishnagiri
	10-Dharmapuri
	11-Tiruvannamalai
	12-Arani
	13-Viluppuram (SC)
	14- Kallakurichi
	15- Salem
	16- Namakkal
	17- Erode
	18-Tiruppur
	19-Nilgiris (SC)
	20-Coimbatore
	21-Pollachi
	22- Dindigul
	23-Karur
	24- Tiruchirappalli
	25- Perambalur
	26-Cuddalore
	27- Chidambaram (SC)
	28- Mayiladuthurai
	29- Nagapattinam (SC)
	30-Thanjavur
	31-Sivaganga
	32-Madurai
	33-Theni
	34-Virudhunagar
	35-Ramanathapuram
	36-Thoothukkudi
	37-Tenkasi (SC)
	38-Tirunelveli
	39-Kanniyakumari
UTTAR PRADESH	16-Hathras (SC)
	17-Mathura
	18-Agra (SC)
	19-Fatehpur Sikri
	20-Firozabad
	21-Mainpuri
	22-Etah
31-Hardoi (SC)	

	40-Farrukhabad
	41-Etawah (SC)
	42-Kannauj
	44-Akbarpur
WEST BENGAL	5-Raiganj
	6-Balurghat
	7-Maldaha Uttar
	8-Maldaha Dakshin
	9-Jangipur
	11-Murshidabad
PUDUCHERRY	1-Puducherry

(P.K. Malhotra)

Secretary to the Government of India  
[F. H-11024/2/2014-Leg.II]

भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001/29 मार्च, 2014/8 चैत्र, 1936 (शक)

सं. 464/2014 (6)—यतः, भारत के राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन जारी और दिनांक 29 मार्च, 2014 (शनिवार) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा—

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्न रूप से नियत करता है, —

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख — 5 अप्रैल, 2014 (शनिवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख — 7 अप्रैल, 2014 (सोमवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख — 9 अप्रैल, 2014 (बुधवार)

(घ) अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा, और

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व उक्त उल्लिखित संसदीय — 28 मई, 2014 (बुधवार)

निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा, और,

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को, निर्वाचन के लिए मतदान होगा।

## अनुसूची

## संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दिनांक तथा मतदान का समय

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान की तारीख	मतदान का समय
1	2	3
<b>1 – असम</b>		
4- धुब्री	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 05:00 बजे तक
5- कोक्राझाड़ (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 05:00 बजे तक
6- बारपेटा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 05:00 बजे तक
7- गौहाटी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 05:00 बजे तक
8- मंगलदाई	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 05:00 बजे तक
10- नौगोंग	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 05:00 बजे तक
<b>2 – बिहार</b>		
8- सुपौल	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
9- अररिया	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
10- किशनगंज	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक



11- कटिहार	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
12- पूर्णियाँ	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
26- भागलपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
27- बाँका	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>3 - छत्तीसगढ़</b>		
1- सरगुजा (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
2- रायगढ़ (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
3- जांजगीर - चांपा (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
4- कोरबा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
5- बिलासपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
7- दुर्ग	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
8- रायपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>4 - जम्मू व कश्मीर</b>		
3- अनन्तनाग	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>5 - झारखण्ड</b>		
1 - राजमहल (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
2 - दुमका (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
3 - गोड्डा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
7 - धनबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
<b>6 - मध्य प्रदेश</b>		
18- विदिशा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
21- देवास (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
22- उज्जैन (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
23- मंदसौर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
24- रतलाम(अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
25- धार (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
26- इन्दौर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
27- खरगौन (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
28- खण्डवा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
29- बैतूल (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>7 - महाराष्ट्र</b>		
1- नन्दुरबार (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
2- धुले	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
3- जलगांव	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
4- रावेर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
18- जालना	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
19- औरंगाबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
20- दिन्डोरी (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
21- नाशिक	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
22- पालघर (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
23- भिवंडी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
24- कल्याण	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
25- ठाणे	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
26- मुम्बई उत्तर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
27- मुम्बई उत्तर-पश्चिम	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
28- मुम्बई उत्तर-पूर्व	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक

29- मुम्बई उत्तर-मध्य	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
30- मुम्बई दक्षिण-मध्य	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
31- मुम्बई दक्षिण	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
32- रायगड़	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>8 - राजस्थान</b>		
8- अलवर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
9- भरतपुर (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
10- करौली - धौलपुर (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
11- दौसा (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
12- टोंक - सवाई माधोपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>9 - तमिलनाडू</b>		
1- तिरुवल्लुर (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
2- चेन्नई उत्तर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
3- चेन्नई दक्षिण	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
4- चेन्नई केन्द्रीय	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
5- श्रीपेरुम्बुदुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
6- कांचीपुरम (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
7- अराकोन्म	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
8- वेल्लोर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
9- कृष्णागिरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
10- धर्मापुरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
11- तिरुवन्नामलाई	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
12- अरानी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
13- विलुपुरम् (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
14- कल्लाक्किरिची	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
15- सलेम	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
16- नामाक्कल	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
17- इरोड	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
18- तिरुप्पुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
19- नीलागिरि (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
20- कोयम्बटूर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
21- पोल्लाची	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
22- डिण्डीगुल	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
23- करूर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
24- तिरुचिरापल्ली	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
25- पेरम्बलुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
26- कुड्डालोर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
27-चिदम्बरम (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
28- मइलादुथरई	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
29- नागापट्टिनम (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
30- थन्जावुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
31- शिवगंगा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
32- मदुरई	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
33- थेनी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
34- विरुधुनगर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
35- रामानाथपुरम	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
36- थूथुकुडी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
37- टेनकासी (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
38- तिरुनेलवेली	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक

39- कन्याकुमारी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>10 - उत्तर-प्रदेश</b>		
16- हाथरस (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
17- मथुरा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
18- आगरा (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
19- फतेहपुर सीकरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
20- फिरोजाबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
21- मैनपुरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
22- एटा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
31- हरदोई (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
40- फर्रुखाबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
41- इटावा (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
42- कन्नौज	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
44- अकबरपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>11 - पश्चिम बंगाल</b>		
5- रायगंज	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
6- बालूरघाट	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
7- माल्हादा उत्तर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
8- माल्हादा दक्षिण	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
9- जंगीपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
11- मुर्शिदाबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>12 - पुडुचेरी</b>		
1- पुडुच्चेरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक

आदेश से,  
**सुमित मुखर्जी,**  
 सचिव,  
 भारत निर्वाचन आयोग।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated the 29<sup>th</sup> March, 2014/8 Chaitra, 1936 (Saka)*

**No. 464/2014 (6)—WHEREAS**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 29<sup>th</sup> March, 2014 (Saturday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (1) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in the Schedule, to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby -

- (A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule, -
- the 5<sup>th</sup> April, 2014 (Saturday)**, as the last date for making nominations;
  - the 7<sup>th</sup> April, 2014 (Monday)**, as the date for scrutiny of nominations;
  - the 9<sup>th</sup> April, 2014 (Wednesday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;
  - the date, specified in column (2) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule; and
  - the 28<sup>th</sup> May, 2014 (Wednesday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and
- (B) **Fixes the hours** specified in Column (3) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (2) thereof, for the above election.

## SCHEDULE

## Parliamentary Constituency, Dates and Hours of Poll

No. & Name of Parliamentary Constituency	Date of Poll	Hours of Poll
1	2	3
<b>1 – ASSAM</b>		
4-Dhubri	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 05:00PM
5-Kokrajhar (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 05:00PM
6-Barpeta	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 05:00PM
7-Gauhati	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 05:00PM
8-Mangaldoi	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 05:00PM

10-Nawgong	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 05:00PM
<b>2 -BIHAR</b>		
8-Supaul	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9-Araria	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10-Kishanganj	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11-Katihar	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
12-Purnia	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
26-Bhagalpur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
27-Banka	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>3-CHHATTISGARH</b>		
1-Surguja (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2-Raigarh (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3-Janjgir-Champa (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4-Korba	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
5-Bilaspur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7- Durg	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
8-Raipur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>4-JAMMU &amp; KASHMIR</b>		
3-Anantnag	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>5-JHARKHAND</b>		
1-Rajmahal (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
2-Dumka (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
3-Godda	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM

7-Dhanbad	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
<b>6-MADHYA PRADESH</b>		
18-Vidisha	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
21-Dewas (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
22-Ujjain (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
23-Mandsour	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
24-Ratlam (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
25-Dhar (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
26-Indore	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
27-Khargone (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
28-Khandwa	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
29-Betul (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>7-MAHARASHTRA</b>		
1-Nandurbar (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2-Dhule	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3-Jalgaon	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4-Raver	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
18-Jalna	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
19-Aurangabad	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
20-Dindori (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
21-Nashik	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
22-Palghar (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
23-Bhiwandi	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

24-Kalyan	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
25-Thane	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
26-Mumbai North	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
27-Mumbai North-West	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
28-Mumbai North-East	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
29-Mumbai North-Central	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
30-Mumbai South-Central	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
31-Mumbai South	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
32-Raigad	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>8-RAJASTHAN</b>		
8- Alwar	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9- Bharatpur (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10-Karauli-Dholpur (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11- Dausa (ST)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
12-Tonk-Sawai Madhopur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>9-TAMIL NADU</b>		
1- Tiruvallur (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2- Chennai North	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3- Chennai South	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4-Chennai Central	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
5-Sriperumbudur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
6-Kancheepuram (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7- Arakkonam	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

8-Vellore	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9-Krishnagiri	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10-Dharmapuri	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11-Tiruvannamalai	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
12-Arani	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
13-Viluppuram (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
14- Kallakurichi	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
15- Salem	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
16- Namakkal	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
17- Erode	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
18-Tiruppur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
19-Nilgiris (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
20-Coimbatore	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
21-Pollachi	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
22- Dindigul	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
23-Karur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
24- Tiruchirappalli	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
25- Perambalur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
26.Cuddalore	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
27. Chidambaram (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
28. Mayiladuthurai	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
29. Nagapattinam (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
30.Thanjavur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
31-Sivaganga	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM



32-Madurai	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
33-Theni	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
34-Virudhunagar	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
35-Ramanathapuram	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
36-Thoothukkudi	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
37-Tenkasi (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
38-Tirunelveli	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
39-Kanniyakumari	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>10-UTTAR PRADESH</b>		
16-Hathras (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
17-Mathura	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
18-Agra (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
19-Fatehpur Sikri	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
20-Firozabad	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
21-Mainpuri	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
22-Etah	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
31-Hardoi (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
40-Farrukhabad	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
41-Etawah (SC)	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
42-Kannauj	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
44-Akbarpur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>11-WEST BENGAL</b>		
5-Raiganj	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

6-Balurghat	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7-Maldaha Uttar	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
8-Maldaha Dakshin	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9-Jangipur	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11-Murshidabad	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>12-PUDUCHERRY</b>		
1-Puducherry	24 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

By order,  
**SUMIT MUKHERJEE,**  
*Secretary to the  
Election Commission of India.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 333-571+300-डी०टी०पी०।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**